



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञापिते

संख्या—586
13/08/2018

महामहिम राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के श्वसुर श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिन्हा के निधन पर शोक—संवेदना व्यक्त की

पटना, 13 अगस्त 2018::— महामहिम राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के श्वसुर श्रद्धेय श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिन्हा जी के निधन पर अपनी शोक—संवेदना व्यक्त की है।

राज्यपाल श्री मलिक ने अपने शोकोद्गार में कहा है कि स्व. कृष्णनन्दन बाबू समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास को लेकर बराबर प्रयासरत रहते थे।

राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा को चिरशांति तथा शोक—संतप्त समस्त पारिवारिक सदस्यों को धैर्य—धारण की क्षमता प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

.....